

Subject: AICTE in collaboration with AWS presenting an exciting opportunity for students | AWS DeepRacer Student league - India 2022 - reg.

प्रिय छात्र/छात्राओ

6 जून को, माननीय शिक्षा मंत्री ने #डिजिटल स्किलिंग पहल (<https://1crore.aicte-india.org/>) शुरू करने की घोषणा की थी- जो भारत को वैश्विक डिजिटल प्रतिभा केंद्र बनाता है। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में 1 करोड़ डिजिटल कार्यबल का निर्माण करना है।

अमेज़ॉन वेब सर्विसेज (ए.डब्ल्यू.एस) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई.सी.टी. ई) के सहयोग से ए.डब्ल्यू.एस डीपरेसर स्टूडेंट लीग - भारत 2022 (<https://awsdeepracerleague.in/2022/index.aspx>) का आयोजन कर रहा है। ए.डब्ल्यू.एस डीपरेसर स्टूडेंट लीग मशीन लर्निंग (एम.एल) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर छात्रों को कौशल प्रदान करने की एक पहल है।

यह प्रतियोगिता उन सभी छात्रों के लिए खुला है जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और वर्तमान में भारत में एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में भरती हुए हैं। इसमें **तीन राउंड** (<https://awsdeepracerleague.in/2022/index.aspx#journey>) होंगे- प्रारंभिक, सेमीफाइनल और अंतिम। प्रतियोगिता के दौरान, विभिन्न स्वयं-सीखने की और सक्षम गतिविधियाँ होंगी जो छात्रों को मशीन लर्निंग समझने में मदद करेगी।

इस प्रतियोगिता का पहला विजेता 1,00,000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर, एक ए.डब्ल्यू.एस ब्रांडेड स्वेग किट और ए.डब्ल्यू.एस ग्लोबल डीपरेसर स्टूडेंट चैंपियनशिप कप में सीधे प्रवेश जीतेगा। इस साल की ए.डब्ल्यू.एस डीपरेसर स्टूडेंट लीग में, ए.डब्ल्यू.एस भागीदारों की तरफ से सर्वोच्च 100 विजेताओं के लिए रोमांचक रोजगार के अवसर लेकर आ रही है और **इंटेल** और **यूडेसिटी** के सहयोग से एडब्ल्यूएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) और मशीन लर्निंग (एम.एल) छात्रवृत्ति कार्यक्रम जीतने का अवसर प्रदान करती है। आप **यहाँ** प्रतियोगिता के पुरस्कारों का पूरा विवरण देख सकते हैं। सभी प्रतिभागी छात्रों को भागीदारी का एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा।

हम सभी छात्रों को प्रतियोगिता के लिए यहाँ पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं

धन्यवाद,

सादर

विपिन कुमार

सहायक निदेशक, नीट सेल, अभातशिप

9761800624, ad2neat@aicte-india.org